



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)


वाद संख्या:-2021/7

दर्ज तिथि:-05.01.2021

1. खांगणराम पुत्र कुम्भाराम  
जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का तला पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्ना  
.....वादी

बनाम

1. डूंगराराम पुत्र कुम्भाराम फौत के वारिश्मान  
1/1 भभूताराम पुत्र डूंगराराम
2. कलाराम पुत्र कुम्भाराम(विलोपित)
3. गोमाराम पुत्र तगाराम
4. हरजीराम पुत्र तगाराम फौत के वारिश्मान  
4/1 महेन्द्र पुत्र हरजीराम  
4/2 सुखदेव पुत्र हरजीराम  
(प्रति.4/1,4/2 नाबालिग की कुदरती वली माता कमलादेवी)
5. शंकरलाल पुत्र तगाराम फौत के वारिश्मान  
5/1 मनोज पुत्र शंकरलाल नाबालिग की कुदरती वली दादी हरियोंदेवी पत्नी तगाराम
6. लाखाराम पुत्र तगाराम
7. सांवलाराम पुत्र तगाराम
8. हरियोंदेवी पत्नी तगाराम(विलोपित)  
जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का तला ,मांगता तहसील धोरीमन्ना
9. भैराराम पुत्र केवाराम  
जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना
10. ताराराम पुत्र मूलाराम
11. वनाराम पुत्र मूलाराम
12. हरजीराम पुत्र मूलाराम
13. घमण्डाराम पुत्र मूलाराम
14. लूणाराम पुत्र मूलाराम
15. चेतनराम पुत्र मूलाराम
16. बबरी पत्नी मूलाराम
17. हेमाराम पुत्र धनाराम
18. राउराम पुत्र धनाराम
19. देदाराम पुत्र धनाराम

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना



20. बींजाराम पुत्र वालाराम
21. बाबूलाल पुत्र वालाराम
22. पुरखाराम पुत्र वालाराम
23. इन्द्रादेवी पत्नी वालाराम  
जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का तला पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमना
24. शाखा प्रबन्धक,एसबीबीजे शाखा वर्तमान एसबीआई शाखा धोरीमना
25. शाखा प्रबन्धक,आरएमबी शाखा मांगता तहसील धोरीमना
26. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना

.....प्रतिवादीगण


उपरिथत अधिवक्ता  
वादी:- श्री देवाराम चौधरी  
प्रतिवादी:-श्री सुरेश पूनड़  
श्री खेताराम पूनड़

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-01.04.2025


1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहकक अन्तर्गत धारा-88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 301 रकबा 103-09 बीघा, वाके ग्राम मांगता व खसरा संख्या 382 रकबा 25-04 बीघा, खसरा संख्या 386 रकबा 61-15 बीघा,खसरा संख्या 396 रकबा 2-11 बीघा वाके ग्राम मेघवालों का तला, मांगता तहसील धोरीमना में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के पूर्वज कुम्भाराम की वक्त सेटलमेन्ट से खातेदारी आराजी थी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के पूर्वज कुम्भाराम का स्वर्गवास सेटलमेन्ट से पूर्व हो गया जिससे वारिश उसके जाईन्दा पुत्र डूंगराराम,कलाराम,तगाराम,खांखणराम थे। उक्त चारों पुत्रों का संयुक्त हिन्दु परिवार था जिसका खानदानकर्ता व मुख्या डूंगराराम पुत्र कुम्भाराम था। उस समय वादी नाबालिग था जिस वजह से उपरोक्त खेतों का पर्चा लगान डूंगराराम ने दूधू के खेतों में कुम्भाराम के सभी पुत्रों का नाम सही तौर से दर्ज करवाया था परन्तु ग्राम मांगता के खेतों में डूंगराराम ने सैटलमेन्ट वालों से मिलिभगत कर अपने अकेले के नाम खेत खसरा संख्या 386,396,397,382 में दर्ज करवा दिया और खसरा संख्या 301 में डूंगरा,कला व तगाराम का नाम दर्ज करवा दिया जबकि वादी का नाम उपरोक्त खसरा में दर्ज नहीं करवाया जिसका ज्ञान वादी नाबालिग होने से उस समय नहीं हो सका।
2. सेटलमेन्ट से पूर्व,सेटलमेन्ट के समय ,सेटलमेन्ट के बाद आज दिन तक सेटलमेन्ट के ग्राम दूधू के खेत खसरा संख्या 956,957,959,991,1018,1046,1047 में वादी व प्रतिवादी का 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी अनुसार सेटलमेन्ट के ग्राम मांगता के खेत खसरा संख्या 301 रकबा 103-09 बीघा में वादी व प्रतिवादी डूंगराराम,कलाराम,तगाराम प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा सेटलमेन्ट के ग्राम मांगता के खेत खसरा संख्या 386,396,397,382 में वादी का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमना

डूंगराराम के वारिशान, कलाराम के वारिशान का 1/12 हिस्सा तथा तगाराम के वारिशान का 1/12 हिस्से पर वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक वादी प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त खातेदारी आराजी पैतृक आराजी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दू के अंतर्गत आने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित रखते हैं। इसी अनुसार वादी वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 से 8 उक्त आराजी को भू माफियाओं को बेचान करने पर आमामादा है। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाने का निवेदन किया।

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1से 16, 18, 24 से 25 के सम्मन बावजूद रजिस्टर्ड तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 17, 19 से 23 मय वकुलाय न्यायालय हाजा उपस्थित हुए। प्रकरण में प्रतिवादी गण को अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत करने पर वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न शपथ पत्र, गवाह एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाए।

दस्तावेज	संवत्/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 47 मौजा मांगता	प्रदर्श-01
जमाबंदी	खाता संख्या 45 मौजा मेघवालों का तला	प्रदर्श-02
खतौनी बन्दोबस्त	खाता संख्या 61 मौजा मांगता	प्रदर्श-03
खतौनी बन्दोबस्त	खाता संख्या 60 मौजा मांगता	प्रदर्श-04
खतौनी बन्दोबस्त	खाता संख्या 304 मौजा दूधू	प्रदर्श-05
आधार	वादी स्वयं का आधार कार्ड	प्रदर्श-05 ए
जमाबंदी	खाता संख्या 50 ग्राम मांगता संवत् 2070 से स्थाई	प्रदर्श-06
जमाबंदी	खाता संख्या 50 ग्राम मेघवालों का तला संवत् 2070 से स्थाई	प्रदर्श-07
जमाबंदी	खाता संख्या 49 ग्राम मेघवालों का तला संवत् 2070 से स्थाई	प्रदर्श-08

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमना

1. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए-

नाम	जाति	निवासी
खांगणराम पुत्र कुम्भाराम	मेघवाल	मेघवालों का तला
चेतनराम पुत्र मूलाराम	मेघवाल	मेघवालों का तला
वभूताराम पुत्र डूंगराराम	मेघवाल	मेघवालों का तला

4. प्रकरण में प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-15 नियम-01 में प्रावधान बनाये गये हैं। जिसका उद्धरण इस प्रकार है:-


**ORDER XV**

**Disposal of the Suit at the first hearing**

**1. Parties not at issue.—**

*(1) Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.*

5. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए एवं प्रतिवादी सहमति अनुसार आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
6. मैंने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा दो निम्न अनुतोष निवेदित किये हैं:-
1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के साथ वादी को सहखातेदार घोषित किया जावे।
  2. वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन, हस्तक्षेप व बेचान, रहन नहीं करने/कराने तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
7. पत्रावली पर अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुतोष संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार है:-
1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जावे।

  
**सहायक कलक्टर**  
**SDO धोरीमना**

8. प्रकरण में प्रथम अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

**15. Khatedar tenants**— (1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:

**Provided that** no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.


(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:

(a) that the land held by him was let out to him after the commencement of this Act.

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

  
सहायक कलेक्टर  
SDO धोरीमना

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application, declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (1).

7. प्रकरण में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:-

**6. Devolution of interest in coparcenary property.—**

(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—


(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;

(b) have the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenary property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

8. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरुष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-6 के अनुसार पुत्र व पुत्री को समान अधिकार व दायित्व दिये जाने के प्रावधान है। प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पत्ति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 से

  
सहायक कलेक्टर  
SDO धोरीमना

08 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 कुम्भाराम के वंशज है।

9. अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-6 व 8 के तहत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 कुम्भाराम के वंशज होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 लागू होने तथा भुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
10. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**188. Injunction against wrongful ejection—**

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;


(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमना


4.

जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।
8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-1 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैं:-

स्वामित्व एवं कब्जा	प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 301 रकबा 103-09 बीघा, वाके ग्राम मांगता व खसरा संख्या 382 रकबा 25-04 बीघा, खसरा संख्या 386 रकबा 61-15 बीघा, खसरा संख्या 396 रकबा 2-11 बीघा वाके ग्राम मेघवालों का तला, मांगता तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है। प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू-भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है।
सुविधा का संतुलन	मुतनाजा आराजी पर वादीकी संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारणवादी के किसी निश्चित भू-भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है।
अपूरणीय क्षति	प्रकरण में पत्रावलीके अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 301 रकबा 103-09 बीघा, वाके ग्राम मांगता व खसरा संख्या 382 रकबा 25-04 बीघा, खसरा संख्या 386 रकबा 61-15 बीघा, खसरा संख्या 396 रकबा 2-11 बीघा वाके ग्राम मेघवालों का तला, मांगता तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है। प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है।

11. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावलीके अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 301 रकबा 103-09 बीघा, वाके ग्राम मांगता व खसरा संख्या 382 रकबा 25-04 बीघा,

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमना


खसरा संख्या 386 रकबा 61-15 बीघा, खसरा संख्या 396 रकबा 2-11 बीघा वर्तमान  
खसरा संख्या 301/16.7459 वाके ग्राम मांगता व खसरा संख्या 382/4.0469 है0,  
382/1/0.0324 है0, 386/9.9714 है0, 396/0.3237 है0, 396/1/0.0890 है0 वाके  
ग्राम मेघवालॉ का तला, मांगता तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है। प्रकरण में वादी का  
प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त  
काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से  
साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व  
अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी  
निश्चित भू-भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना  
कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादी की संयुक्त खातेदारी  
आराजी होने के कारण वादी के किसी निश्चित भू-भाग पर बिना विधिक विभाजन  
करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के  
पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। परन्तु रिकॉर्ड में सहखातेदार होने से अपने हिस्से तक व  
अपने हिस्से तक की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

### आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरार हक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया  
जाता है। वादीगण को मुतनाजा आराजी हाल वाके ग्राम मांगता के खसरा  
संख्या 301 रकबा 103-09 बीघा में 1/4 हिस्सा व वाके ग्राम मेघवालॉ  
का तला, मांगता के खसरा संख्या 382 रकबा 25-04 बीघा, खसरा  
संख्या 386 रकबा 61-15 बीघा, खसरा संख्या 396 रकबा 2-11 बीघा  
(वर्तमान खसरा संख्या 382/4.0469 है0, 382/1/0.0324 है0, 386/9.9714 है0,  
396/0.3237 है0, 396/1/0.0890 है0 वाके ग्राम मेघवालॉ का तला, मांगता तहसील धोरीमन्ना) में 1/12 हिस्सा का मुताबिक हिन्दू  
उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के अनुसार हक हिस्से का खातेदार घोषित  
किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक  
संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरुस्त करवाने का  
अधिकारी घोषित किया जाता है। तथा वादी के हिस्से तक स्थाई  
निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के हक हिस्से में किसी  
प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 01.04.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं  
मोहर युक्त जारी किया गया।

  
(भागीरथराम आर.ए.एस.)  
सहायक कमिश्नर  
SDO धोरीमन्ना



खान्देशीय न्याय  
डिक्री व मुकदमों इन्वादाई  
(आर्डर 20, रूल्स 6,7, सीपीसी)  
न्यायालय

खांणराम बनाम डूंगराराम  
2021/7  
निर्णय दिनांक:-01.04.2025

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना-बाड़मेर


(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2021/7

दर्ज तिथि:-05.01.2021

1. खांणराम पुत्र कुम्भाराम  
जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का तला पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्ना  
.....वादी  
बनाम

1. डूंगराराम पुत्र कुम्भाराम फौत के वारिश्ान  
1/1 भभूताराम पुत्र डूंगराराम
2. कलाराम पुत्र कुम्भाराम(विलोपित)
3. गोमाराम पुत्र तगाराम
4. हरजीराम पुत्र तगाराम फौत के वारिश्ान  
4/1 महेन्द्र पुत्र हरजीराम  
4/2 सुखदेव पुत्र हरजीराम  
(प्रति.4/1,4/2 नाबालिग की कुदरती वली माता कमलादेवी)
5. शंकरलाल पुत्र तगाराम फौत के वारिश्ान  
5/1 मनोज पुत्र शंकरलाल नाबालिग की कुदरती वली दादी हरियोंदेवी पत्नी तगाराम
6. लाखाराम पुत्र तगाराम
7. सांवलाराम पुत्र तगाराम
8. हरियोंदेवी पत्नी तगाराम(विलोपित)  
जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का तला ,मांगता तहसील धोरीमन्ना
9. भैराराम पुत्र केवाराम  
जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना
10. ताराराम पुत्र मूलाराम
11. वनाराम पुत्र मूलाराम
12. हरजीराम पुत्र मूलाराम
13. घमण्डाराम पुत्र मूलाराम
14. लूणाराम पुत्र मूलाराम
15. चेतनराम पुत्र मूलाराम
16. बवरी पत्नी मूलाराम
17. हेमाराम पुत्र धनाराम
18. राउराम पुत्र धनाराम

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

19. देदाराम पुत्र धनाराम
20. बीजाराम पुत्र वालाराम
21. बाबूलाल पुत्र वालाराम
22. पुरखाराम पुत्र वालाराम
23. इन्द्रादेवी पत्नी वालाराम  
जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का तला पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्ना
24. शाखा प्रबन्धक,एसबीबीजे शाखा वर्तमान एसबीआई शाखा धोरीमन्ना
25. शाखा प्रबन्धक,आरएमबी शाखा मांगता तहसील धोरीमन्ना
26. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री देवाराम चौधरी

प्रतिवादी:-श्री सुरेश पूनड

श्री खेताराम पूनड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955


-:पर्चा डिक्री:-

वादी का दावा बाबत इस्तकरार हक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीगण को मुतनाजा आराजी हाल वाके ग्राम मांगता के खसरा संख्या 301 रकबा 103-09 बीघा में 1/4 हिस्सा व वाके ग्राम मेघवालों का तला, मांगता के खसरा संख्या 382 रकबा 25-04 बीघा, खसरा संख्या 386 रकबा 61-15 बीघा, खसरा संख्या 396 रकबा 2-11 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 382/4.0469 है0, 382/1/0.0324 है0, 386/9.9714 है0, 396/0.3237 है0, 396/1/0.0890 है0 वाके ग्राम मेघवालों का तला, मांगता तहसील धोरीमन्ना) में 1/12 हिस्सा का मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के अनुसार हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत राजस्व इंड्राज दुरुस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तथा वादी के हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।



यह पर्चा-डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा-डिक्री आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

  
(भागीरथराम आर.एस.)  
सहायक कलेक्टर  
SDO धोरीमन्ना